



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2011/भाद्र 23, 1933

No. 186]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2011/BHADRA 23, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 सितम्बर, 2011

फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/23/29210.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक्सचेंज स्क्वेयर, सुनेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400093 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संहिता (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संहिता (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 16 सितम्बर, 2011 को प्रारंभ होने वाली और 15 सितम्बर, 2012 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संहिताओं की बाबत इसमें इसके नीचे कथित अथवा इसके पश्चात् यथा विहित या अधिरोपित शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करता है :

- मान्यता का यह नवीकरण तारीख 13 सितम्बर, 2011 की सूचना (नोटिस) पर किए जाने वाले विनिश्चय के अध्यक्षीन है।
- मान्यता का यह नवीकरण एमसीएक्स-एसएक्स के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के तारीख 23 सितम्बर, 2010 के आदेश की बाबत लंबित न्यायालय की कार्यवाहियों के अध्यक्षीन और सुसंगत विधियों, नियमों और विनियमों जो, स्टॉक एक्सचेंजों/प्रतिभूतियों में व्यापार पर लागू हों के अनुपालन, जिनमें प्रतिभूति संहिता (विनियमन) (मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सार्वजनिक शोयरधारण को बढ़ाने और बनाए रखने की रीति) विनियम, 2006 के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन सम्मिलित है, के अध्यक्षीन भी है।
- एक्सचेंज केवल उन प्रतिभूतियों में व्यापार की अनुज्ञा देगा जिनमें अब तक व्यापार की अनुमति थी और वह प्रतिभूतियों में संहिताओं के किसी नए वर्ग को प्रविष्ट करने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि अन्यथा अनुज्ञात न किया जाए।
- एक्सचेंज ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं।

प्रशांत सरन, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/69-जेडबी/11-असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th September, 2011

F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/23/29210. The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by MCX Stock Exchange Limited, having its registered office at Exchange Square, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai -400 093 and being satisfied that it would be in the interests of trade and also in the public interest so to do hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 16th day of September, 2011 and ending on the 15th day of September, 2012 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as prescribed or imposed hereafter :

- This renewal of recognition is subject to the decision to be taken on the notice dated September 13, 2011.
- This renewal of recognition is also subject to the court proceedings pending in respect of the order of SEBI dated September 23, 2010 against MCX-SX and subject to compliance with the relevant laws, rules and regulations as made applicable to stock exchanges/trading in securities including compliance with relevant provisions of the Securities Contracts (Regulation) (Manner of Increasing and Maintaining Public Shareholding in Recognised Stock Exchanges) Regulations, 2006.
- The Exchange will permit trade only in securities in which trading was permitted hitherto and shall not be eligible for introduction of any new class of contracts in securities, unless permitted otherwise.
- The Exchange shall comply with such other conditions as may be prescribed by SEBI from time to time.

PRASHANT SARAN, Whole Time Member

[ADVT. III/4/69-ZB/11-Exty.]